



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021

आश्विन 2, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

13th September, 2021,

Dated : _____.

22 Bhadrapada, 1943 (Saka),

CORRIGENDUM

No. 434/UP-LA/2021(1) :- IN Para 1 of English version of the Election Commission's Notification No. 434/UP-LA/2021(1), dated 2nd July, 2021, for "...Officer or Officers or Government..." read "...Officer or Officers of Government....".

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 सितम्बर, 2021,
22 भाद्रपद, 1943 (शक),

शुद्धि-पत्र

सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2021(1) :- भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 2 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या 434/उ०प्र०-वि०स०/2021(1) के अंग्रेजी रूपान्तर के पैरा 1 में "..... Officer or Officers or Government..." के स्थान पर "..... Officer or Officers of Government...." पढ़ा जाएगा।

आदेश से,
पुष्पा एन० लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।